

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**जून-जुलाई, 2014 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**सोमवार, दिनांक 30 जून, 2014 (आषाढ 9, 1936)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## 1. शपथ

उप चुनाव में, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 144-विदिशा से निर्वाचित सदस्य, श्री कल्याण सिंह ठाकुर शपथ लेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

## 2. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री गोपीनाथ मुंडे, केन्द्रीय मंत्री
- (2) श्री प्रभात पाण्डे, सदस्य विधान सभा
- (3) श्री एस. मल्लिकार्जुनैया, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष
- (4) श्री तपन सिकंदर, पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री
- (5) श्री नारायण प्रसाद शुक्ला, विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष
- (6) श्री बी.आर. यादव, पूर्व सदस्य विधान सभा, तथा
- (7) श्री खुशवंत सिंह, पूर्व राज्य सभा सदस्य.

## 3. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 4. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014) पटल पर रखेंगी.

## 5. मार्च, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

## 6. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2014 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

## 7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री कैलाश चावला, सचिन यादव, सदस्य, प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को अधिक दर से खाद की बिक्री किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन जिला अंतर्गत क्षिप्रा नदी में प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 8. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 92-विजयराघवगढ़ से निर्वाचित सदस्य, श्री संजय पाठक तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 166-आगर (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री मनोहर ऊंटवाल के द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

## 9. सभापति तालिका की घोषणा

**भोपाल :**  
**दिनांक : 29 जून, 2014**

**भगवानदेव ईसरानी**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा**